



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2006/अग्रहायण 2, 1928

No. 568]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2006/AGRAHAYANA 2, 1928

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 723(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद एतद्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्ति होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में नियम 10 में;

(i) उप-नियम (1) और (6) में, 'दो वर्षों' शब्दों के स्थान पर क्रमशः 'एक वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) उप-नियम (2) के तहत किसी पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने में, सरकार को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा, अर्थात् :—

(क) क्या सेवानिवृत्ति के बाद प्रस्तावित वाणिज्यिक रोजगार हेतु संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी से और अधिकारी के उस कार्यालय से जहां से वह

सेवानिवृत्त हुआ है, 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) क्या अधिकारी का अपनी सेवा के अंतिम तीन वर्षों में किसी ऐसी संवेदनशील अथवा सामरिक महत्व की सूचना से संबंध रहा है जिसका प्रत्यक्ष संबंध ऐसे संगठन, जिसमें उसने कार्यभार ग्रहण करने का प्रस्ताव किया है अथवा ऐसे क्षेत्रों में जिसमें उसने प्रैक्टिस अथवा परामर्शी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया है, के हित अथवा कार्य क्षेत्रों से है;

(ग) क्या जिस कार्यालय में अधिकारी ने अंतिम तीन वर्षों में पद धारित किया हुआ था, उसकी नीतियों और जिस संगठन में वह शामिल होने का प्रस्ताव करता है, उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे हितों अथवा कार्यों के बीच हितों का टकराव है अथवा नहीं।

स्पष्टीकरण:— इस खंड के प्रयोजनार्थ “हित के टकराव” में सरकार अथवा इसके उपक्रमों के साथ सामान्य आर्थिक प्रतिस्पर्धा शामिल नहीं होगी।

(घ) क्या जिस संगठन में वह शामिल होना चाहते हैं, उसका, किसी भी प्रकार से, भारत के विदेश संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सौहार्द के साथ टकराव रहा है अथवा वह संगठन इन सभी के प्रतिकूल रहा है और क्या वह संगठन किसी भी रूप में आसूचना एकत्र करने से संबंधित कोई कार्य कर रहा है;

(ङ) क्या अधिकारी का सेवा रिकॉर्ड, विशेषतः सत्यनिष्ठा और गैर-सरकारी संगठनों के साथ कार्य-व्यवहार के संबंध में, साफ-सुथरा है;

(च) क्या प्रस्तावित परिलब्धियाँ और आर्थिक लाभ, उद्योग जगत में वर्तमान में प्रचलित परिलब्धियों और आर्थिक लाभों से बहुत अधिक हैं।

स्पष्टीकरण:- इस उप-खंड के प्रयोजनार्थ "बहुत अधिक" शब्दों का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि इसमें ऐसी प्रसुविधाओं में हुई बढ़ोतरी को भी शामिल किया जाए जो उद्योग जगत अथवा समग्र अर्थव्यवस्था में उन्नयन के परिणामस्वरूप दिए जा रहे हों;

(छ) अन्य कोई संगत कारक।

(iii) फार्म 25 में;—

(क) क्रम संख्या 7 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ग) क्या अधिकारी का, अपनी सरकारी नौकरी (कैरिअर) के अंतिम तीन वर्षों के दौरान उस फर्म अथवा कम्पनी अथवा सहकारी संस्था इत्यादि से कोई कार्य-व्यवहार रहा था।"

(ख) क्रम संख्या 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"9. घोषणा:-

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि-

(क) वह रोजगार, जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, में ऐसे क्रियाकलाप अन्तर्निहित नहीं होंगे जो भारत के विदेश संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सौहार्द के प्रतिकूल हों। इसमें मेरे द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान धारित पद अथवा कार्यालय की नीतियों के साथ हितों का टकराव नहीं होगा और वह संगठन, जिसमें मैं शामिल होना चाहता हूँ, द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे हित अथवा किए जा रहे कार्य के कारण मेरा सङ्कार के कार्यकरण के साथ टकराव नहीं होगा।

(ख) मैं अपनी सेवा के अंतिम तीन वर्षों के दौरान ऐसी किसी संवेदनशील अथवा सामरिक महत्व की सूचना से संबंधित नहीं रहा जो उस संगठन, जिसमें मैं कार्य करना चाहता हूँ, के हित क्षेत्रों अथवा कार्य से जुड़ी हो अथवा ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हो जिसमें मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ अथवा परामर्शी सेवा देना चाहता हूँ।

(ग) मेरा सेवा रिकॉर्ड, विशेषतः सत्यनिष्ठा और गैर-सरकारी संगठनों के साथ कार्य-व्यवहार के संबंध में साफ-सुथरा है।

(घ) सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति करने पर मैं वाणिज्यिक रोजगार छोड़ने के लिए सहमत हूँ।

पता

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर"

[फा. सं. 27012/1/2006-स्थापना (क)]

सी.बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:-मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 1-4-1972 के संख्या का.आ. 934 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे:-

1. का. आ. 254, दिनांक 4 फरवरी, 1989
2. का. आ. 970, दिनांक 6 मई, 1989
3. का. आ. 2467, दिनांक 7 अक्टूबर, 1989
4. का. आ. 899, दिनांक 14 अप्रैल, 1990
5. का. आ. 1454, दिनांक 26 मई, 1990
6. का. आ. 2329, दिनांक 8 सितम्बर, 1990
7. का. आ. 3269, दिनांक 8 दिसम्बर, 1990
8. का. आ. 3270, दिनांक 8 दिसम्बर, 1990
9. का. आ. 3273, दिनांक 8 दिसम्बर, 1990
10. का. आ. 409, दिनांक 9 दिसम्बर, 1990
11. का. आ. 464, दिनांक 16 फरवरी, 1991
12. का. आ. 2287, दिनांक 7 सितम्बर, 1991
13. का. आ. 2740, दिनांक 2 नवम्बर, 1991
14. सा. का. नि. 677, दिनांक 7 दिसम्बर, 1991
15. सा. का. नि. 399, दिनांक 1 फरवरी, 1992
16. सा. का. नि. 55, दिनांक 15 फरवरी, 1992
17. सा. का. नि. 570, दिनांक 19 दिसम्बर, 1992
18. का. आ. 258, दिनांक 13 फरवरी, 1993
19. का. आ. 1673, दिनांक 7 अगस्त, 1993
20. सा. का. नि. 449, दिनांक 11 सितम्बर, 1993
21. का. आ. 1984, दिनांक 25 सितम्बर, 1993
22. सा. का. नि. 389(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 1994
23. का. आ. 1775, दिनांक 19 जुलाई, 1997
24. का. आ. 259, दिनांक 30 जनवरी, 1999
25. का. आ. 904(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2000
26. का. आ. 717(अ), दिनांक 27 मई, 2001
27. का. आ. 4000, दिनांक 28 दिसम्बर, 2002
28. का. आ. 860(अ), दिनांक 28 जुलाई, 2003
29. का. आ. 1483(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2003
30. का. आ. 1487(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2005

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2006

G.S.R. 723 (E).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audition and Accounts Department, the President hereby makes the following rules

further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2006
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, in rule 10,—

(i) in sub-rules (1) and (6), for the words 'two years', the words 'one year' shall respectively be substituted;

(ii) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) In granting or refusing permission under sub-rule (2) to a pensioner for taking up any commercial employment, the Government shall have regard to the following factors, namely :—

- (a) Whether a 'No Objection' for the proposed post retirement commercial employment has been obtained from the cadre controlling authority and from the office where the officer retired;
- (b) Whether the officer has been privy to sensitive or strategic information in the last three years of his service which is directly related to the areas of interest or work of the organization which he proposes to join or the areas in which he proposes to practice or consult;
- (c) Whether there is conflict of interest between the policies of the office he has held in the last three years and the interest represented or work undertaken by the organization he proposes to join.

Explanation.—For the purposes of this clause, “conflict of interest” shall not include normal economic competition with the Government or its undertakings.

- (d) Whether the organization he proposes to join has been known to be in any way in conflict with or prejudicial to India's foreign relations, national security and domestic harmony, and whether the organization is undertaking any for intelligence gathering.
- (e) Whether service record of the officer is clear, particularly with respect to integrity and dealings with non-Government organizations;
- (f) Whether the proposed emoluments and pecuniary benefits are far in excess of those currently prevailing in the Industry.

Explanation.—For the purposes of this sub-clause, the words “far in excess”, shall not be construed as to cover increase in such benefit that may be as a result of buoyancy in industry or in the economy as a whole;

(g) Any other relevant factor.”

(iii) In FORM 25 :—

(a) In serial number 7, for clause (c), the following shall be substituted, namely :—

“(c) Whether the officer had during the last three years of his official career, any dealings with the firm or company or Co-operative Society, etc.”

(b) for serial number 9, the following shall be substituted, namely :—

“9. Declaration :—

I hereby declare that—

- (a) The employment, which I propose to take up, will not involve activities prejudicial to India's foreign relations, national security and domestic harmony. It will not involve conflict of interest with the policies of the office held by me during the last three years and the interest represented or work undertaken by the organization I propose to join will not bring me into conflict with the working of the Government.
- (b) I have not been privy to sensitive or strategic information in the last three years of service, which is directly related to the areas of interest or work of the organization that I propose to join or to the areas in which I propose to practice or consult.
- (c) My service record is clear, particularly with respect to integrity and dealings with Non-Government Organisations.
- (d) I agree to withdraw from the commercial employment in case of any objection by the Government.

Address

Place

Dated

Signature of applicant.”

[F. No. 27012/1/2006-Estt. (A)]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 934 dated 1-4-1972 and subsequently amended by—

1. S.O. 254 dated the 4th February, 1989.
2. S.O. 970 dated the 6th May, 1989.
3. S.O. 2467 dated the 7th October, 1989.
4. S.O. 899 dated the 14th April, 1990.
5. S.O. 1454 dated the 26th May, 1990.
6. S.O. 2329 dated the 8th September, 1990.

7. S.O. 3269 dated the 8th December, 1990.
8. S.O. 3270 dated the 8th December, 1990.
9. S.O. 3273 dated the 8th December, 1990.
10. S.O. 409 dated the 9th December, 1990.
11. S.O. 464 dated the 16th February, 1991.
12. S.O. 2287 dated the 7th September, 1991.
13. S.O. 2740 dated the 2nd November, 1991.
14. G.S.R. 677 dated the 7th December, 1991.
15. G.S.R. 399 dated the 1st February, 1992.
16. G.S.R. 55 dated the 15th February, 1992.
17. G.S.R. 570 dated the 19th December, 1992.
18. S.O. 258 dated the 13th February, 1993.
19. S.O. 1673 dated the 7th August, 1993.
20. G.S.R. 449 dated the 11th September, 1993.
21. S.O. 1984 dated the 25th September, 1993.
22. G.S.R. 389 (E) dated the 18th April, 1994.
23. S.O. 1775 dated the 19th July, 1997.
24. S.O. 259 dated the 30th January, 1999.
25. S.O. 904 (E) dated the 30th September, 2000.
26. S.O. 717 (E) dated the 27th May, 2001.
27. S.O. 4000 dated the 28th December, 2002.
28. S.O. 860 (E) dated the 28th July, 2003.
29. S.O. 1483 (E) dated the 30th December, 2003.
30. S.O. 1487 (E) dated the 14th October, 2005.